



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**  
**बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019 (19 पौष, शक संवत् 1940)**  
**विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.**

**1. माननीय अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामना**

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री अजय विश्वाई, सदस्यगण द्वारा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.", अध्यक्ष महोदय को उनके निर्वाचन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई.

**2. निधन का उल्लेख**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

- (1) श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री,
- (2) श्री सोमनाथ चटर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
- (3) श्री प्रफुल्ल माहेश्वरी, पूर्व राज्यसभा सदस्य,
- (4) श्री इन्द्रजीत कुमार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (5) श्री देवीसिंह पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री रामानंद सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री दयाल सिंह तुमराची, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (8) श्री जुगल किशोर बजाज, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री स्वामी प्रसाद लोधी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री विमल कुमार चौरडिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (12) श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (13) श्री राधाकृष्ण भगत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (14) सुश्री डॉ. कल्पना परूलेकर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य एवं श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, सदस्यगण द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

मध्याह्न 12.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019 (20 पौष, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भोपाल:**  
**दिनांक: 9 जनवरी, 2019**

**ए. पी. सिंह,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**